

## प्रेस नोट

आधुनिक समय में कम लागत लगा कर अधिक रूपये पैदा करने के क्रम में रजिस्टर्ड कम्पनी की नकल करके फर्जी तरीके से रैपर खरीद कर उनमें अपमिश्रित माल भरकर अपने फायदे के लिये आम जनता में अपमिश्रित माल बेचकर राजस्व चोरी व रजिस्टर्ड कम्पनी को बदनाम कर कमखर्च कर अधिक पैसे कमाने आदि प्रकार कार्य कर आम जनता को ठगी का शिकार बना रहे हैं। इस प्रकार की घटनायें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। जिसके दृष्टिगत श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली महोदय द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को अपमिश्रित खाद्य पदार्थ की बिक्री को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

आवेदक ए.जे.सुगन्धी प्रा.लि.कानपुर कम्पनी के डायरेक्टर श्री अनिल गुप्ता पुत्र श्री गोविन्द दास गुप्ता नि. 80 मेगा ड्रीम होम कर्मचारी नगर थाना इज्जतनगर वरेली द्वारा नकली पान मसाला बनाने के सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र दिया जिस पर संज्ञान लेकर थाना वारादरी पर अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है।

अभियोग के अनावरण हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा मुखविर को मामूर कर पतारसी सुरागरसी करते हुये चौकी रुहेलखण्ड वैष्णो धाम मन्दिर के पास वेदी स्कूल के सामने स्थित गोदाम पर दविश दी गयी तो वहां पर संचिनगुप्ता पुत्र राकेश गुप्ता नि. सैनिक कालौनी गली नं. -8 संजय नगर वारादरी वरेली को गिरफ्तार किया जहा पर एक मशीन पान मसाला( गुटखामसाला) बनाने की तथा भारी मात्रा में 25 बोरी पान मसाला( गुटखामसाला) तथा जिसने पूछने पर बताया कि मेरी दो अन्य गोदाम है। एक गोदाम मो. गोसाईगौटिया में है तथा दूसरी गोदाम मेरे घर पर संजयनगर में है। तथा मेरी एक दुकान गंगापुर में है। अभियुक्त के बताये स्थान पर मो. गोसाई गौटियास्थित गोदाम पर पर गये जहां से एक मशीन पान मसाला( गुटखामसाला) बनाने तथा तथा भारी मात्रा में 20 बोरी पान मसाला( गुटखामसाला)तथा गंगापुर में भी भारी मात्रा में अपमिश्रित पानमसाला वरामद हुआ जिससे करीब 10 करोड़ का राजस्व खाटा हुआ। छापे के दौरान ए.जे.सुगन्धी प्रा.लि.कानपुर कम्पनी के डायरेक्टर श्री अनिल गुप्ता पुत्र श्री गोविन्द दास गुप्ता नि. 80 मेगा ड्रीम होम कर्मचारी नगर थाना इज्जतनगर वरेली व उनके साथी तानसेन गुटखा वाले ,तोप वीडि वाले ,27 नं. वीडि वाले एवं 405 वीडि वाले साथ रहे।

## **नाम पता गिरफ्तार अभि०-**

(1) संचिनगुप्ता पुत्र राकेश गुप्ता नि. सैनिक कालौनी गली नं. -8 संजय नगर वारादरी वरेली

## **बरामदगी:-**

1- दो मशीने गुटखा वनाने वाली कीमत (करीब पांच लाख रूपये )

2- 50 बोरी अपमिश्रित गुटखा व तम्बाकू , वीड्री के वन्डल

## **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. श्री शितान्शु शर्मा प्रभारी निरीक्षक बारादरी वरेली
2. व०उ०नि० श्री संजय सिंह थाना बारादरी वरेली
3. उ०नि० श्री नसीम खां थाना बारादरी वरेली
4. उ०नि० श्री कुलदीप कुमार थाना बारादरी वरेली
5. उ०नि० श्री राजीव वर्मा थाना बारादरी वरेली
6. उ०नि० श्री इन्द्रपाल सिंह थाना बारादरी वरेली
7. म०उ०नि० अनुराधा वर्मा थाना बारादरी वरेली
8. म०उ०नि० रजनी चौधरी थाना बारादरी वरेली
9. का. 790 विकास वालियान थाना बारादरी वरेली
10. का. का.429 सुधीर तोमर थाना बारादरी वरेली
11. रि.का.2414 ललित कुमार थाना बारादरी वरेली
12. रि.म.का.3217 अंजली थाना बारादरी वरेली
13. रि.म.का 1328 निशा थाना बारादरी वरेली
14. म०का०2619 रेखा कुमारी थाना बारादरी वरेली

